



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

16 आश्विन 1931 (श0)  
(सं0 पटना 517) पटना, बृहस्पतिवार, 8 अक्टूबर 2009

पत्रांक 3/स्था0मू0कोटि 1003/08/559(3)रा0  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

सेवा में,

महालेखाकार,

वीरचन्द्र पटेल, पथ

बिहार, पटना।

द्वारा — वित्त विभाग।

दिनांक 16 सितम्बर 2009

विषय— अधिसूचना संख्या—558(3) रा0/ पटना, दिनांक 16 सितम्बर 2009 द्वारा नवसृजित 18 अंचलों के लिए अनुमानित व्यय रू0 2,38,54,680.00 (दो करोड़ अड़तीस लाख चौवन हजार छः सौ अस्सी रुपये) मात्र की लागत पर संलग्न विवरणी में उल्लेखित कुल 162 (एक सौ बासठ) राजपत्रित एवं अराजपत्रित पदों का सृजन।

आदेश :—स्वीकृत।

2. इसका व्यय भार "2029 भू-राजस्व (गैर योजना)—104—सरकारी सम्पदाओं का प्रबंध—0001—राजस्व प्रशासन पर व्यय—मांग संख्या—40—विपत्र कोड—2029001040001" की उपर्युक्त इकाई के अन्तर्गत विकलनीय होगा।

3. अंचल अधिकारियों के पदों की स्वीकृति अंचल सृजन की तिथि से सिद्धान्ततः (नोशनली) की जाती है परन्तु वेतन एवं भत्ते आदि का भुगतान वास्तविक प्रभार ग्रहण करने की तिथि से की जायेगी। शेष सभी पदों की स्वीकृति राज्यादेश निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगी।

4. सृजित किये जाने वाले पदों की विवरणी—I एवं व्यय विवरणी—II संलग्न है।

5. समाहर्ता नवसृजित अंचलों में आनेवाले हल्का कर्मचारी को पैतृक अंचल से स्थानान्तरित कर नवसृजित अंचलों में पदस्थापित करेंगे।

6. प्रस्ताव में प्रशासी पदवर्ग समिति की सहमति प्राप्त है।
7. प्रस्ताव में मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,  
विश्वनाथ झा,  
सरकार के उप-सचिव।

---

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,  
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।  
बिहार गजट (असाधारण) 517-571+300-डी०टी०पी०।  
**Website: <http://egazette.bih.nic.in>**